



Date: 05/02/2025

To, National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051 NSE Scrip Symbol: INTERARCH	To, BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai- 400001 BSE Scrip Code 544232
--	--

Sub: Newspapers advertisement pertaining to Unaudited Financial Results for Quarter & Nine Months ended December 31, 2024.

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulations 30 and 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 as amended, we enclose copies of the newspapers advertisement pertaining to the unaudited financial results of the Company for the Quarter & Nine Months ended on December 31, 2024 published in the Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) on February 5, 2025.

Thanking You,

For INTERARCH BUILDING PRODUCTS LIMITED

ARVIND Digitally signed by
ARVIND NANDA
NANDA Date: 2025.02.05
13:55:00 +05'30'

ARVIND NANDA
MANAGING DIRECTOR
DIN: 00149426

INTERARCH BUILDING PRODUCTS LIMITED

(Formerly known as Interarch Building Products Private Limited)

Head Office : B-30, Sector 57, Noida - 201301, India.

Tel.: +91 120 4170200, CIN: L45201DL1983PLC017029



BUILDING
INNOVATORS

Registered Office: Farm No-8, Khasra No. 56/23/2, Dera Mandi Road, Mandi Village, Tehsil Mehrauli, New Delhi - 110047, India.

info@interarchbuildings.com www.interarchbuildings.com

INDIA GLYCOLS LIMITED

Regd. Office: A-1, Industrial Area, Bazpur Road, Kashipur - 244 713, Distt. Udham Singh Nagar (Uttarakhand)

Phones: +91 5947 269000/269500; Fax: +91 5947 275315/269535

Email: compliance.officer@indiaglycols.com, Website: www.indiaglycols.com • CIN: L24111UR1983PLC009097


Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2024

(₹ In Crore, except as stated)

Sl. No.	Particulars	STANDALONE						CONSOLIDATED						
		Quarter Ended			Nine Months Ended			Year Ended	Quarter Ended			Nine Months Ended		
		31.12.2024 (Unaudited)	30.09.2024 (Unaudited)	31.12.2023 (Unaudited)	31.12.2024 (Unaudited)	31.12.2023 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)		31.12.2024 (Unaudited)	30.09.2024 (Unaudited)	31.12.2023 (Unaudited)	31.12.2024 (Unaudited)	31.12.2023 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)
1	Total income from operations	2,429.58	2,147.97	2,123.74	6,862.78	5,903.28	7,944.50	2,429.83	2,148.05	2,123.49	6,863.26	5,903.54	7,947.27	
2	Profit before Interest, depreciation and Tax (EBDITA)	129.98	120.69	107.71	376.10	313.69	423.48	129.48	120.12	106.81	377.96	318.86	428.09	
3	Net profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or extraordinary items)	58.45	53.20	50.05	173.66	150.92	202.05	57.94	52.64	49.16	175.51	156.09	206.65	
4	Net profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or extraordinary items)	58.45	53.20	50.05	173.66	150.92	202.05	57.94	52.64	49.16	175.51	156.09	206.65	
5	Net profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or extraordinary items)	43.84	39.45	37.79	130.03	113.99	151.73	56.81	49.71	41.63	166.90	130.78	172.99	
6	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	43.88	39.48	37.83	130.14	114.10	151.92	56.39	49.64	42.14	166.36	130.73	172.80	
7	Equity Share Capital	30.96	30.96	30.96	30.96	30.96	30.96	30.96	30.96	30.96	30.96	30.96	30.96	
8	Other Equity						1,685.34						2,020.06	
9	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (Not Annualised) - Basic & Diluted (In ₹)	14.16	12.74	12.21	42.00	36.82	49.01	18.35	16.06	13.45	53.91	42.24	55.87	

Note:

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Nine Monthly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Nine Monthly Financial Results are available on the Stock Exchanges Websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website (URL: https://www.indiaglycols.com/financial-information/). The same can be accessed by scanning the QR code provided below.



for INDIA GLYCOLS LIMITED

Sd/-


U.S. BHARTIA

Chairman and Managing Director

DIN: 00063091

Place : Noida

Date : 4th February, 2025

 MIDLAND microfin beyond microfinance		MIDLAND MICROFIN LIMITED					
Registered Office:- The AXIS, Plot No.1, R.B. Badri Dass Colony, G.T Road, Jalandhar PB 144001 (INDIA)							
(CIN: U65921PB1988PLC008430) Tel : +91-181-5076000, Fax No : +91- 181- 2236070 Website : www.midlandmicrofin.com							
Extract of the Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2024 (₹ Rupees in millions unless otherwise stated)							
S. No.	Particulars	Quarter Ended		Nine months ended		Year Ended	
		31-12-2024 Unaudited	31-12-2023 Unaudited	31-12-2024 Unaudited	31-03-2024 Audited	31-12-2024 Unaudited	31-03-2024 Audited
1	Total Income from Operations	1,503.14	1,335.06	4,711.51	5,308.72		
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	59.73	208.03	431.07	940.10		
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	59.73	208.03	431.07	940.10		
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	47.68	156.01	328.18	721.55		
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	27.46	157.17	291.98	727.14		
6	Paid up Equity Share Capital	476.11	455.70	476.11	476.11		
7	Instruments entirely equity in nature	434.68	415.73	434.68	434.68		
8	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	2,009.19	1,493.49	2,009.19	1,751.06		
9	Securities Premium Account	2,216.72	1,627.05	2,216.72	2,216.74		
10	Net worth	5,136.70	3,991.97	5,136.70	4,878.59		
11	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	22,023.23	17,855.43	22,023.23	19,372.23		
12	Outstanding redeemable preference shares	303.71	443.90	303.71	455.42		
13	Debt Equity Ratio (in times)	4.29	4.47	4.29	3.97		
14	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) -						
	1. Basic (Rs.)	0.77	3.26	6.23	16.45		
	2. Diluted (Rs.)	0.70	3.22	5.75	15.53		
15	Capital Redemption Reserve	88.80	42.80	88.80	42.80		
16	Debenture Redemption Reserve	36.63	36.63	36.63	36.63		
17	Debt Service Coverage Ratio	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable		
18	Interest Service Coverage Ratio	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable		
Notes:							
1. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on February 04, 2025, in accordance with the requirements of Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The above results for the quarter and nine months ended December 31, 2024 have been reviewed by the Statutory Auditors of the Company.							
2. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Unaudited Financial Results are available on the stock exchange website (www.bseindia.com) and the website of the Company (www.midlandmicrofin.com).							
3. The above Financial Results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind-AS) notified by the Ministry of Corporate Affairs.							
Place : Jalandhar				For Midland Microfin Limited			
Date: February 04, 2025				Sd/-			
				Amardeep Singh Samra, Managing Director			

INTERARCH BUILDING PRODUCTS LIMITED

(formerly known as Interarch Building Products Private Limited)

CIN:L45201DL1983PLC017029

Regd. Office: Farm No. 8, Khasara No. 56/23/2, Dera Mandi Road, Mandi Village, Tehsil Mehrauli, New Delhi-110047 India

Phone No: 91 120 4170200, Website: <https://www.interarchbuildings.com>

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2024

(₹ in lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended	Nine Months Ended	Year Ended			
		31.12.2024	30.09.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.03.2024
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
I	Total Income	36,927.88	32,823.05	32,124.28	1,00,366.48	91,790.07	1,30,631.44
II	Net Profit for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	3,751.14	2,743.78	2,984.97	9,254.14	7,599.34	11,588.88
III	Net Profit for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	3,751.14	2,743.78	2,984.97	9,254.14	7,599.34	11,588.88
IV	Net Profit for the period after tax	2,819.66	2,067.06	2,199.23	6,937.78	5,656.58	8,626.20
V	Total comprehensive income for the period [Comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive Income/(loss) (after tax)]	2,821.68	2,069.07	2,223.94	6,943.83	5,639.93	8,634.27
VI	Paid-up equity share capital (Face value of ₹ 10/- per share, fully paid)						1,441.59
VII	Other equity						43,020.87
VIII	Earnings per share (Face value of ₹ 10/- per share)*						
	Basic	16.94	13.54	15.26	44.92	38.23	58.68
	Diluted	16.79	13.41	15.26	44.68	38.23	58.68

*Not annualized except year ended


Notes:

- The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation 2015, as amended (the "Listing Regulation"). The full format of unaudited financial results are available on Company's website www.interarchbuildings.com and on the websites of BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com).
- The unaudited financial results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2024 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on February 04, 2025. The statutory auditors have carried out limited review of unaudited financial results for quarter and nine months ended December 31, 2024.

For and on behalf of the Board of Directors of
Interarch Building Products Limited
(formerly known as Interarch Building Products Private Limited)
Sd/-
Arvind Nanda
Managing Director
DIN: 00149426

For More
Information
Please Scan:

Place: Noida
Date: February 04, 2025



TYGER CAPITAL PRIVATE LIMITED

(formerly known as Adani Capital Private Limited)

Regd Office Address: Adani House, 56 Shrimali Society, Navrangpura, Ahmedabad - 380009, Gujarat, India. **CIN:** U65990GJ2016PTC093692, **Tel:** +91 22 6241 1200

Fax: +91 22 2652 0650, **Website:** www.tyger.in

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2024

(₹ in millions)

Sr. No	Particulars	Quarter Ended 31-Dec-24	Quarter Ended 31-Dec-23	Year Ended 31-Mar-24
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total Income from Operations	1,858.97	1,514.91	5,697.86
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and / or extraordinary items)	300.50	277.26	801.60
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and / or extraordinary items)	300.50	277.26	801.60
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and / or extraordinary items)	224.22	207.26	595.86
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising of Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	224.07	206.83	590.55
6	Paid up Equity Share Capital	388.02	232.09	388.02
7	Reserves (Excluding Revaluation Reserves)	2,272.11	1,729.66	1,654.30
8	Securities Premium Account	13,853.24	4,819.58	13,853.24
9	Money received against Share Warrants	750.00	-	750.00
10	Net Worth	17,263.37	6,781.32	16,645.56
11	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	28,565.84	26,737.90	28,036.21
12	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-
13	Debt Equity Ratio	1.65	3.94	1.68
14	Earnings per equity share			
	Basic (₹) (Not Annualized)	5.78	8.93	25.43
	Diluted (₹) (Not Annualized)	5.78	8.82	25.12
15	Capital Redemption Reserve	-	-	-
16	Debenture Redemption Reserve	NA	NA	NA
17	Debt Service Coverage Ratio	NA	NA	NA
18	Interest Service Coverage Ratio	NA	NA	NA
19	Liquidity Coverage Ratio (%)	NA	NA	NA

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of standalone quarterly financial results filed with the stock exchanges under regulation 52 of the Listing and Other Disclosure Requirements Regulation. The full format of the standalone quarterly financial results are available on the website of the Stock Exchange www.bseindia.com and on the Company's website www.tyger.in.
- For the other line items referred in regulation 52 (4) of the LODR Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange(s) (Bombay Stock Exchange) and can be accessed on the URL www.bseindia.com.
- The above standalone financial results of the Company are reviewed and recommended by the Audit Committee and have been approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on February 04, 2025. The said standalone financial results have also been subjected to a limited review by the statutory auditors MSKA & Associates on which they have expressed an unmodified opinion.
- Figures for the previous periods / year have been regrouped / reclassified wherever necessary to confirm with the current period / year presentation.

For and on behalf of Board of Directors

Mr. Gaurav Gupta
Managing Director & CEO
DIN: 01669109

Date : February 04, 2025

Place : Mumbai

इंटरआर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड

(पूर्व की इंटरआर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड)

सीआईएन: L45201DL1983PLC017029

पंजीकृत कार्यालय: फार्म नं. 8, खसरा नं. 56/23/2, डेरा मंडी रोड, मंडी गांव, तहसील महरीली, नई दिल्ली -110047, भारत
दूरभाष: +91 120 4170200, वेबसाइट: <https://www.interarchbuildings.com>


31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही और नौमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

(रु. लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त नौमाही		समाप्त वर्ष
		31.12.2024	30.09.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	
		अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	
							लेखापरीक्षित
I	कुल आय	36,927.88	32,823.05	32,124.28	1,00,366.48	91,790.07	1,30,831.44
II	अवधि हेतु निवल लाभ (कर, अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	3,751.14	2,743.78	2,984.97	9,254.14	7,599.34	11,588.88
III	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	3,751.14	2,743.78	2,984.97	9,254.14	7,599.34	11,588.88
IV	कर पश्चात अवधि हेतु निवल लाभ	2,819.06	2,067.06	2,199.23	6,937.78	5,656.58	8,626.20
V	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु (कर पश्चात) लाभ तथा अन्य व्यापक आय/(हानि) (कर पश्चात) शामिल]	2,821.68	2,069.07	2,223.94	6,943.83	5,639.93	8,634.27
VI	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (रु. 10/- प्रति शेयर का अंकित मूल्य, पूर्ण प्रयत्न)						1,441.59
VII	अन्य इक्विटी						43,020.87
VIII	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति शेयर का अंकित मूल्य)						
	बेसिक	16.94	13.54	15.26	44.92	38.23	58.68
	डाइल्यूटेड	16.79	13.41	15.26	44.68	38.23	58.68

*समाप्त वर्ष को छोड़कर वार्षिकीकृत नहीं

- नोट :**
- उपरोक्त सहायशोधित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायित्व किए गए 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही और नौमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है। अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप कंपनी की वेबसाइट www.interarchbuildings.com और बीएसई (www.bseindia.com) और एनएसई (www.nseindia.com) की वेबसाइटों पर उपलब्ध है।
 - 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही और नौमाही के कंपनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई है और 04 फरवरी, 2025 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। वैधानिक लेखा परीक्षकों ने 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही और नौमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की सीमित समीक्षा की है।

इंटरआर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड (पूर्व की इंटरआर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड) के निदेशक मंडल की ओर से हस्ता/- अरविंद नन्दा प्रबंध निदेशक सीआईएन : 00149426	अधिक जानकारी के लिए कृपया स्कैन करें:	
स्थान : नोएडा दिनांक : 04 फरवरी, 2025		

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS"). INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE MAIN BOARD OF THE STOCK EXCHANGES IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SEBI ICDR REGULATIONS. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA.

PUBLIC ANNOUNCEMENT



(Please scan the QR Code to view the DRHP)



AMANTA HEALTHCARE LIMITED

Our Company was originally incorporated on December 21, 1994 as Marck Parenterals (India) Limited with RoC, Gujarat, at Ahmedabad by converting the existing Partnership firm "Marck Parenterals (India)" under Part IX of the Companies Act, 1956 and received the Certificate for Commencement of Business on January 06, 1995. Subsequently, the name of our Company was changed to "Marck Biosciences Limited" pursuant to a special resolution passed by our shareholders on October 29, 2005. The fresh certificate of incorporation consequent upon change of name was granted on November 05, 2005 by the Registrar of Companies, Gujarat at Ahmedabad. Subsequently, the name of our Company was changed to "Amanta Healthcare Limited" pursuant to a special resolution passed by our shareholders on June 12, 2014, and a fresh certificate of incorporation dated June 24, 2014 issued by the Registrar of Companies Gujarat at Ahmedabad. For further details of the history of our company, kindly refer to section "**History and Certain Corporate Matters**" beginning on page 230 of the Draft Red Herring Prospectus dated February 03, 2025 (the "DRHP"), filed with the securities and exchange board of India ("SEBI") on February 04, 2025.

Registered and Corporate Office: 8th Floor, Shaligram Corporates, C.J. Marg, Ambli, Ahmedabad - 380058, Gujarat India
Tel: 079 67777600 | **Contact Person:** Nikhita Dinodia, Company Secretary and Compliance Officer | **E-mail:** cs@amanta.co.in | **Website:** www.amanta.co.in
Corporate Identity Number: U24139GJ1994PLC023944

PROMOTERS OF OUR COMPANY: BHAVESH PATEL, VISHAL PATEL, JAYSHREEBEN PATEL, JITENDRAKUMAR PATEL AND MILCENT APPLIANCES PRIVATE LIMITED

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO 1,25,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING UP TO ₹ [•] LAKHS (THE "ISSUE") COMPRISING OF OUR POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.
THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE IS ₹ 10 EACH AND THE ISSUE PRICE IS [•] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT SIZE WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY AND THE PROMOTER IN CONSULTATION WITH THE BRLM AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITIONS OF [•] (A WIDELY CIRCULATED ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER), [•] EDITIONS OF [•] (A WIDELY CIRCULATED HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER) AND [•] EDITIONS OF [•] (A WIDELY CIRCULATED GUJARATI DAILY NEWSPAPER, GUJARATI BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF GUJARAT WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED), AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/ISSUE OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO THE STOCK EXCHANGES FOR UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES IN ACCORDANCE WITH THE SEBI ICDR REGULATIONS.

In case of any revision to the Price Band, the Bid/Issue Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision in the Price Band, subject to the Bid/Issue Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company may, in consultation with the BRLM, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid / Issue Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid/ Issue Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/Issue Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a public notice, and also by indicating the change on the website of the BRLM and at the terminals of the Syndicate Member(s) and by intimation to the Designated Intermediaries and the Sponsor Bank, as applicable.
This is an Issue in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended (the "SCRR"), read with Regulation 31 of the SEBI ICDR Regulations. The Issue is being made through the Book Building Process in terms of Regulation 6 (1) of the SEBI ICDR Regulations, wherein not more than 50% of the Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs" and such portion, the "QIB Portion"), provided that our Company, in consultation with the BRLM, may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis ("Anchor Investor Portion"), out of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds on or above the price at which allocation is made to Anchor Investors ("Anchor Investor Allocation Price"), in accordance with the SEBI ICDR Regulations. In the event of under-subscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the Net QIB Portion. Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received from them at or above the Issue Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15% of the Issue shall be available for allocation to Non-Institutional Bidders ("Non-Institutional Portion") of which one-third of the Non-Institutional Category shall be available for allocation to Bidders with an application size of more than ₹ 200,000 and up to ₹ 1,000,000 and two-thirds of the Non-Institutional Category shall be available for allocation to Bidders with an application size of more than ₹ 1,000,000 and under-subscription in either of these two sub-categories of Non-Institutional Category may be allocated to Bidders in the other sub-category of Non-Institutional Category in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. Further, not less than 35% of the Issue shall be available for allocation to Retail Individual Investors ("Retail Category"), in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Issue Price. All Bidders (except Anchor Investors) shall mandatorily participate in this Issue only through the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process and shall provide details of their respective bank account (including UPI ID (defined hereinafter) in case of UPI Bidders (defined hereinafter) in which the Bid Amount will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") or the Sponsor Bank(s), as the case may be. Anchor Investors are not permitted to participate in the Anchor Investor Portion through the ASBA process. For details, see "Issue Procedure" beginning on page 396 of the DRHP.

This public announcement is being made in compliance with the provisions of Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that the Company is proposing to undertake, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, an initial public offering of its Equity Shares pursuant to the Issue and has filed the DRHP with SEBI and with the Stock Exchanges on February 04, 2025.

Pursuant to Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with SEBI shall be made available to the public for comments, if any, for period of at least 21 days, from the date of such filing by hosting it on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, on the websites of the Stock Exchanges, i.e., BSE at www.bseindia.com, NSE at www.nseindia.com where the equity shares are proposed to be listed, the website of the BRLM, i.e., Beeline Capital Advisors Private Limited at www.beelineb.com and the website of the Company at www.amanta.co.in. The Company hereby invites the public to give their comments on the DRHP filed with SEBI with respect to disclosures made in the DRHP. The public are requested to send a copy of their comments to SEBI and/or to the Company Secretary and Compliance Officer of the Company and/or the BRLM at their respective addresses mentioned herein. All comments must be received by SEBI and/or the Company and/or the BRLM and/or the Company Secretary and Compliance Officer of the Company at their respective addresses mentioned herein in relation to the Issue on or before 5:00 p.m. on the 21st day from the aforesaid date of filing of the DRHP with SEBI.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Issue, including the risks involved. The Equity Shares in the Issue have not been recommended or approved by the SEBI, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the DRHP. Specific attention of the investors is invited to "Risk Factors" on page 29 of the DRHP.

Any decision to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be made after the red herring prospectus ("Red Herring Prospectus") has been filed with the RoC and must be made solely on the basis of such Red Herring Prospectus as there may be material changes in the Red Herring Prospectus from the DRHP.

The Equity Shares, when offered, through the Red Herring Prospectus, are proposed to be listed on the Stock Exchanges.

For details of the main objects of the Company as contained in its Memorandum of Association, see "History and Certain Corporate Matters" on page 230 of the DRHP.

The liability of the members of the Company is limited. For details of the share capital, capital structure of the Company and the names of the signatories to the Memorandum of Association and the number of shares subscribed by them see "Capital Structure" on page 85 of the DRHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER	REGISTRAR TO THE ISSUE
BEELINE Capital Advisors Pvt. Ltd. Beeline Capital Advisors Private Limited B 1311-1314 Thirteenth Floor Ship Corporate Park, Rajpath Rangoli Road Thaltej, Ahmedabad 380054, Gujarat Telephone: +91 79 4918 5784 E-mail: mb@beelinemb.com Investor grievance e-mail: ig@beelinemb.com Website: www.beelinemb.com Contact person: Nikhil Shah SEBI Registration No.: INM000012917	MUFG Intime MUFG Intime India Private Limited (formerly Link Intime India Private Limited) C-101, 1st Floor, 247 Park, L.B.S. Marg Vikhroli (West), Mumbai 400 083, Maharashtra Telephone: +91 8108114949 E-mail: amantahealthcare ipo@linkintime.co.in Investor grievance e-mail: amantahealthcare ipo@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in Contact person: Shanti Gopalkrishnan SEBI registration number: INR000004058

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

For **AMANTA HEALTHCARE LIMITED**

On behalf of the Board of Directors

Sd/-

Nikhita Dinodia

Company Secretary and Compliance Officer

AMANTA HEALTHCARE LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offer of its Equity Shares and has filed the DRHP dated February 03, 2025 with SEBI and the Stock Exchanges on February 04, 2025. The DRHP shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, on the websites of the Stock Exchanges i.e., BSE at www.bseindia.com, NSE at www.nseindia.com, the website of the BRLM, i.e., Beeline Capital Advisors Private Limited at www.beelineb.com and the website of the Company at www.amanta.co.in. Potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, see the section titled "Risk Factors" on page 29 of the DRHP. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision.

The Equity Shares offered in the Issue have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act or any state securities laws in the United States, and unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and in accordance with any applicable U.S. state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold only outside the United States in "offshore transactions" as defined in, and in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdictions where such offers and sales are made.

CAPRI GLOBAL
HOUSING FINANCE LIMITED

कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत एवं कार्यालय :- 502, टावर-ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013
संकेत कार्यालय :- 9-बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110060

परिशिष्ट –IV–क खनियम 8 (6) और 9(1) का पर्युक्त देखें,

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय आसितियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) तथा 9(1) के पर्युक्त के अधीन अचल आसितियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना। एतद्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(री) तथा गारंटर(री) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक /प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका प्रलक्षित/भौतिक कब्जा कैंप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, प्रत्याभूत लेनदार, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, नीचे वर्णित कर्जदार की तरफ कैंप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, प्रत्याभूत लेनदार, की बकाया राशि की वसूली के लिए निम्नवर्णित तिथियों को "जैसी है जहां है", जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर बेची जाएगी। सुरक्षित मूल्य, ईएमडी राशि तथा सम्पत्ति का विवरण नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	1. कर्जदार(री) का नाम 2. बकाया राशि	बंधक सम्पत्ति का वर्णन	1. ई-नीलामी की तिथि एवं समय 2. ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 3. सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय 4. ई-नीलामी की तिथि : 11-03-2025 (आप. 3.00 बजे से आप. 4.00 बजे के बीच) 5. ईएमडी, केवाईडी सहित जमा करने की अंतिम तिथि : 10-03-2025 6. निरीक्षण की तिथि : 08-03-2025	1. सुरक्षित मूल्य 2. सम्पत्ति की ईएमडी 3. वृद्धि मूल्य
1.	1. कर्जदार (कर्जदार), 2. श्रमती शीला निवार, 3. दिनेश कुमार (सह-कर्जदार) (रक्षण खाता सं. LNHLPS2000096068 (पुराना) 51200000791918 (नया) पूसा रोड बाबा) रकम 35,97,690 /- (रूपये पैंतीस लाख सत्तानवे हजार छह सौ नब्बे मात्र) 31-01-2025 तक + आगे लागू व्याज।	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : भूमि एवं भवन प्लॉट नंबर 1, भूमि क्षेत्रफल परमाणु 63 वर्ग गज, नया एमसीएफ नंबर 3368, मुस्टटिल नंबर 120, किला नंबर 22 (8-0), ब्लॉक-ए, स्थित : ग्राम बड़का, एसजीएम नगर, तहसील बड़का, जिला फरीदाबाद, हरियाणा-121001। चौदही विमाननूसारी :- पुरब : मकान नंबर एफएस-1137, कमला देवी, पश्चिम : 21 फीट चौड़ी रोड, उत्तर : 9 फीट गली, दक्षिण : श्री आनंद सिंह का मकान		सुरक्षित मूल्य : रु. 28,50,000/- (रूपए अठ्ठाईस लाख पचास हजार मात्र) शरोहर राशि जमा : रु. 2,85,000/- (रूपए दो लाख पचासी हजार मात्र) वृद्धि मूल्य : रु. 10,000/- (रूपए दस हजार मात्र)

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया कैंप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, प्रत्याभूत लेनदार, की वेबसाइट www.capriglobal.in/auction/ में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें।

ऑनलाइन ई-नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें :-

- सम्पत्ति "जैसी है जहां है, जो भी है वहां है" तथा कोई वापसी नहीं आधार" पर बेची जा रही है। अतएव बिक्री किसी प्रकार की वारंटी एवं वारंटी के बिना की जा रही है।
- सम्पत्ति/आसित के विवरण (उदाहरण के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना में विनिर्दिष्ट सीमा एवं परमाणु) प्रभूत लेनदार की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार वर्णित किए गए हैं तथा प्रभूत लेनदार किसी भुटि, मिथ्यावचन अथवा धोखेपत्र के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। वास्तविक सीमा एवं मात्रा निम्न दी गई है।
- प्रभूत लेनदार द्वारा जारी की गई ई-नीलामी बिक्री सूचना जमासाधारण को अपनी बोलियां प्रस्तुत करने हेतु एक आमंत्रण है तथा यह प्रभूत लेनदार की ओर से कोई वचनबद्धता अथवा अभिवेदन नहीं है और न ऐसा करता समझा जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले स्वाभाविक शिखर की प्रति प्रभूत लेनदार से प्राप्त करने और सम्पत्ति/आसित के स्वाभाविक के स्वाभाविक एवं वर्तमान दशा तथा सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दानों/देयताओं की स्वतंत्र जांच/सर्वेक्षण आवश्यक कर लेने की सलाह दी जाती है।
- नीलामी/बोलीदाता सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्वोरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अहमदाबाद द्वारा उपलब्ध कराई गई वेबसाइट <https://sarfaesi.auctiontiger.net> पर अथवा ऑनलाइन टाइमर मोबाइल ऐप के माध्यम से "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड" द्वारा होगा, जो ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के जॉइंट नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया की व्यवस्था एवं समन्वय करेगा।
- बोलीदाता बोलीदाता के लिए अपनी पसंद के स्थान से ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं। इंटरनेट की व्यवस्था बोलीदाता को स्वयं करनी होगी। प्रभूत लेनदार/सेवा प्रदाता इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्याएं, सिस्टम क्री डाउन, पावर फ्लॉवर इत्यादि के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।
- सम्पत्ति बोलीदाता ई-नीलामी के संबंध में विस्तृत विवरण, सहायता, प्रक्रिया तथा ऑनलाइन बोलीदाता के लिए सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्वोरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अहमदाबाद, अहमदाबाद (सम्पर्क नंबर 079-68136880/68136837), श्री रामप्रसाद शर्मा मोबाइल नंबर 800-002-3297/78-8120 0659, ई-मेल : ramprasad@auctiontiger.net से सम्पर्क कर सकते हैं।
- इच्छुक बोलीदाताओं को ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए अपने नाम का पंजीकरण <https://sarfaesi.auctiontiger.net> पर पंजीकृत अंतिम में करवाना होगा तथा यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा।
- ई-नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाता को एक प्रतियोगी ईएमडी, जोकि सुरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत है (उपरि वर्णित अनुसार) "कैंप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से 10-03-2025 को अथवा पूर्व जमा करनी होगी।
- इच्छुक बोलीदाताओं को धिक्कित भरा गया बोली प्राप्त (कॉमेट <https://sarfaesi.auctiontiger.net> पर उपलब्ध है) ईएमडी हेतु डिमांड ड्राफ्ट प्रेषण के साथ एक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करना चाहिए, जो प्राधिकृत अधिकारी, कैंप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ऑफिस कार्यालय, प्लॉट नंबर 9बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली-110060 को अधिकतम 10-03-2025 के अपर 03.00 बजे तक भेजा जा सकता है। सीलबंद लिफाफे पर "कर्जदार नाम" की सम्पत्ति के लिए अग्र खाता नंबर - (उपर वर्णित अनुसार) में ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने हेतु बोली" शीर्षकित किया जाना चाहिए।
- ईएमडी के साथ बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद, प्राधिकृत अधिकारी उनके द्वारा प्राप्त बोलियों की जांच करेंगे तथा योग्य बोलीदाताओं (जिनके द्वारा अपनी बोलियां सुरक्षित मूल्य से अधिक उद्धृत की गई हैं तथा प्रभूत लेनदार द्वारा विनिर्दिष्ट ईएमडी जमा की गई है) के विवरण की पुष्टि मैसर्स ई-प्रोक्वोरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को करेंगे ताकि वे ई-नीलामी बिक्री सूचना में वर्णित तिथि और समय पर ऑनलाइन परस्पर बोलीदान/नीलामी कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति केवल उसी योग्य बोलीदाताओं को दें।
- योग्य बोलीदाताओं के बीच परस्पर बोलीदान योग्य बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत उक्तान्त बोली से आरंभ किया जाएगा। परस्पर बोलीदान की प्रक्रिया के दौरान 10 मिनट प्रत्येक के अंतिमिद्वारा होने अंतिम ई-नीलामी समाप्त होने का समय अंतिम विस्तार से 10 मिनट के भीतर बोली जाने पर हर बार स्वतः 10 मिनट आगे बढ़ जाएगा।
- ई-नीलामी प्रक्रिया समाप्त होने पर, उक्तान्त बोलीदाता को उसके द्वारा उद्धृत अंतिम बोली की राशि की पुष्टि एलकाई ई-मेल द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, कैंप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ऑफिस कार्यालय, प्लॉट नंबर 9बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली-110060 तथा सेवा प्रदाता दोनों को भेजी जाएगी, ताकि उक्त बोली ई-नीलामी प्रक्रिया में सकल बोलीदाता भणित किया जा सके।
- सकल बोलीदाता को बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि (ईएमडी सहित) बोली उसके पक्ष में घुटने पर, बिक्री के 24 घंटे के भीतर तथा बोली राशि की शेष 75 प्रतिशत राशि बिक्री की तिथि से 15 दिन के भीतर कैंप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में डीडी/पे ऑर्डर/एनईएफटी/आरटीजीएस/बैंक द्वारा जमा करनी होगी।
- सकल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान नियत अवधि के भीतर करने में चुक की स्थिति में, बिक्री रद्द कर दी जाएगी तथा पहले जमा की जा चुकी राशिवा (ईएमडी सहित) जमा कर ली जाएगी और सम्पत्ति दोबारा बिक्री हेतु रखी जाएगी।
- सकल बोलीदाता के अनुबंध पर, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, बोली राशि की बकाया रकम चुकाने के लिए समय, एक्साग्र अपने दिव्येनुसार लिखित रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है।
- सकल बोलीदाता को बिक्री मूल्य की 1 प्रतिशत राशि वीयर टीडीएस (बिक्री राशि से) जमा करनी होगी तथा टीडीएस सर्टिफिकेट प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा करना होगा तथा बिक्री मूल्य की पूरी राशि (1 प्रतिशत टीडीएस काटने के बाद), ईएमडी समाप्तित करके हुए, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑफर स्वीकार किए जाने के 15 कार्यदिवस के भीतर अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपयुक्त विचारित विचारित अवधि के भीतर जमा करनी होगी, जिसमें असफल रहने पर जमा की गई शरोहर जमा जवा कर ली जाएगी।
- युनिक्सिल/पंचालत कर, विजिली बकाया (यदि कोई) तथा किसी अन्य प्राधिकरण बकाया (यदि कोई) का भुगतान बिक्री प्रमाणपत्र के निर्गमन से पूर्व संपल बोलीदाता द्वारा किया जाएगा। बोलियां सम्पत्ति से संबंधित सभी कानूनी बकाया को ध्यान में रखकर दी जानी चाहिए।
- प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सकल बोलीदाता के पक्ष में बिक्री प्रमाणपत्र उसके द्वारा पूर्ण क्रय मूल्य/बोली राशि जमा करने तथा सभी करों/प्रभारों के भुगतान के संबंध में आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही जारी किया जाएगा।
- हस्तांतरण, रचना वसूली, पंजीकरण हेतु लागू कानूनी प्रभार तथा अन्य अनुबंधी प्रभार नीलामी क्रेता को वहन करने होंगे।
- प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए ई-नीलामी बिक्री कार्यक्रम प्राथमिक/निरस्त कर सकते हैं। ई-नीलामी बिक्री कार्यक्रम बिक्री की निर्धारित तिथि से 30 से कम दिन पहले की तिथि हेतु प्राथमिक करने की स्थिति में, यह सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।
- प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम कायकारी होगा तथा इसको चुनौती नहीं दी जा सकती है।
- सभी बोलीदाता, जिनके द्वारा बोलियां प्रस्तुत की गई हैं, यह माना जाएगा कि वे ई-नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें पढ़ एवं समझ चुके हैं तथा उनके अधीन बाध्य होंगे।
- सम्पत्ति में रखी चल वस्तु (यदि कोई) बिक्री की तिथि का अंश नहीं है।
- अतिरिक्त विवरण तथा पुरातन के लिए प्राधिकृत अधिकारी, कैंप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड : सुची स्वाति सिंह मोबाइल नंबर 8960750463 से सम्पर्क करें और आगे वृत्ताछ के लिए सुची कल्याण सलताना - 77380 39346 से सम्पर्क करें।
- यह प्रकाशन उक्त अग्र खाते के कर्जदार/बंकदाता/गारंटर को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) तथा 9(1) के तहत, उपरिवर्णित तिथि/स्थान पर नीलामी बिक्री आयोजित करने के संबंध में 30 (तीस) दिन का कानूनी नोटिस भी है।

विशेष अग्रदूत/वेबसाइट : बोलीदाताओं को अंतिम मिनिट अथवा बन्धों में बोलीदान करने की प्रवृत्ति को स्वयं के हित में त्यागना होगा। ना तो कैंप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और ना ही सेवा प्रदाता बोलीदाता की ओर से किसी विकलता/कमी (विद्युत विकलता, इंटरनेट विकलता इत्यादि) हेतु उत्तरदायी होंगे। ऐसी स्थिति से बचने के अग्र में बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे अपेक्षित बैंकअप ऑफर आपूर्ति इत्यादि जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं/विकल्प तैयार रखें, ताकि वे किसी भी आकस्मिक रुकावट से बच सकें और नीलामी में सकलतापूर्वक भाग ले सकें।